



## संकल्पबद्धता एवं अपील

सम्मानित नगरवासियों,

यह मेरा परम सौभाग्य है की मुझे इलाहाबाद शहर के मेयर के रूप में निर्वाचित किया गया और मैं इस अवसर के लिए आप सभी प्रयागवासियों की जीवन पर्यन्त आभारी रहूँगी। जब मैंने शपथ ग्रहण की तो मेरे मन में स्पष्ट उद्देश्य था की मुझे अपने इलाहाबाद शहर को प्रगति की ओर निरन्तर अग्रसर करना है। इस सार्वजनिक जीवन में हमारी आपसी समझ, नागरिकों के बीच सद्भावना, नागरिक सेवाओं की बेहतर आपूर्ति के लिए नितान्त आवश्यक हैं। वर्तमान समय में, यदि समझ और सद्भावना मौजूद नहीं हैं, तो हमारे द्वारा नगर की समस्याओं/आवश्यकताओं को ससमय पूर्ण कर पाना अत्यन्त ही कठिन होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इलाहाबाद नगर निगम पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग है। देश एवं प्रदेश के अत्यन्त ही प्रमुख एवं ख्याति प्राप्त शहरों के बीच इस पवित्र संगम नगरी की गरिमा एवं सहिष्णुता बनाये रखने के लिये हम सभी प्रतिबद्ध हैं। हमारे लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार न केवल प्राथमिकता है, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं जानती हूँ कि हमें नगर की समस्त प्रकार की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के समाधान के लिये संगठित होकर चलने की आवश्यकता है। इस कार्य में निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों के लिये अपने संसाधनों एवं क्रियाकलाप में समय-समय पर आवश्यकतानुसार सुधार की भी आवश्यकता होगी। मेयर के रूप में मैं आप सभी नगरवासियों को आश्वासन देती हूँ की हमारे द्वारा बड़े पैमाने पर जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये हर संभव कदम को अमल में लाया जायेगा।

मैं आश्वासन के साथ आप सभी नगरवासियों से आपके सहयोग और समर्थन के साथ-साथ जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती रहूँगी।

(अभिलाषा गुप्ता 'नन्दी')  
महापौर, इलाहाबाद.